



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी, 2024 ई0 (माघ 07, 1945 शक सम्वत्) [संख्या-04

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	35—38	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	19—40	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	57—84	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग-01

अधिसूचना/प्रकीर्ण

16 जनवरी, 2024 ई0

संख्या 67/XV-1/23/7(14)22/36254-राज्यपाल, उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 13 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), 1904 की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के, उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने के दृष्टिगत निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

1.

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 29 का संशोधन:

2. उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ-1 के विद्यमान नियम 29 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
29.(1) समस्त आवेदन प्रकरणों की सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जाँच कराई जायेगी। सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय सहायता अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा:-	समस्त आवेदन प्रकरणों की जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से जाँच कराई जायेगी। सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन पशुपालन विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों के आलोक में किया जायेगा:-
(क) पशुपालन मंत्री - अध्यक्ष उत्तराखण्ड सरकार	(क) जिलाधिकारी - अध्यक्ष
(ख) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग - सदस्य	(ख) मुख्य विकास अधिकारी - सदस्य सचिव
(ग) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग - सदस्य	(ग) नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय - सदस्य
(घ) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड - सदस्य	(घ) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत - सदस्य
(ङ) सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन - सचिव	(ङ) समस्त उपजिलाधिकारी - सदस्य
(च) विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड - सदस्य सचिव	(च) मुख्य पशुचिकित्साधिकारी - तकनीकी सदस्य
(छ) सचिव, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग - सदस्य	(छ) जिला विकास अधिकारी - सदस्य
(ज) सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड - सदस्य	(ज) जिला पंचायती राज अधिकारी - सदस्य
	(झ) प्रभागीय वनाधिकारी - सदस्य

आज्ञा से,

डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of English Translation of Notification No.67/XV-1/24/7(14)/22 Dated- January 16, 2024 for general information.

NOTIFICATION/MISCELLANEOUS

January 16, 2024

No.67/XV-1/24/7(14)/22--In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 13 of Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007, read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act (as applicable in state of Uttarakhand), 1904, the Governor is pleased to make the following rules with view to further amend the Uttarakhand State Protection of Cow Progeny Rules, 2011.

The Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2024

Short title and commencement:

1.(1) These rules may be called the Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2024.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 29:

2. In the Uttarakhand State Protection of Cow Progeny Rules 2011, for the existing rule 29 as setout in column-1 below rule as setout in column-2 shall be substituted; namely-

Column-1 Existing Rules	Column-2 Rules Hereby substituted
29.(1) All the applications shall be examined by competent authority. After examination of all the issues related to these applications by the competent authority the following committee shall select the organizations for grant of Government aid :-	All the applications shall be examined by the District Magistrate through the nominated officer. After examination the following selection committee shall select the organizations for grant of Government aid in accordance of the relevant Government orders of Animal Husbandry department :-
(a) Minister, Animal Husbandry, Government of Uttarakhand - Chairperson	(a) District Magistrate- Chairperson
(b) Chairperson, Uttarakhand GauSewaAyog - Member	(b) Chief Development Officer-Member Secretary
(c) Deputy Chairperson, Uttarakhand GauSewaAyog - Member	(c) Municipal Commissioner /Executive Officer, Concerned Municipal Body-Member
(d) Deputy Chairperson, Uttarakhand Animal Welfare Board - Member	(d) Additional Chief Officer, District Panchayat- Member
(e) Secretary, Animal husbandry, Government of Uttarakhand - Secretary	(e) All Subdivisional Magistrate-Member
(f) Head of Department, Department of Animal husbandry, Uttarakhand -Member Secretary	(f) Chief Veterinary Officer- Technical Member
(g) Secretary, Uttarakhand GauSewaAyog - Member	(g) District Development Officer- Member
(h) Secretary, Uttarakhand Animal Welfare Board - Member	(h) District Panchayati Raj Officer- Member
	(i) Divisional Forest Officer-Member

By Order,

DR. B.V.R.C. PURSHOTTAM,
Secretary.

राजस्व अनुभाग-1

विज्ञप्ति

09 जनवरी, 2024 ई०

संख्या 180738 / XVIII(1)/2024-E-64289—जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या-02/नौ0-01/स्था0प0 (2023-24), दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से प्रेषित श्री अयोध्या प्रसाद उनियाल, नायब तहसीलदार, जाखणीघार सम्बद्ध प्रगारी तहसीलदार, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के अनुरोध पत्र दिनांक 25.08.2023 तथा शासनादेश संख्या-3497/III-500(5)-46, दिनांक 06.11.1946 के प्राविधानों के क्रम में उनके सेवा अभिलेखों में अंकित मूल निवास का पता ग्राम खाल-खण्डकरी, तहसील टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान पर मूल/स्थायी निवास का पता ग्राम नथुवावाला, न्याय पंचायत, मियांवाला, तहसील व जनपद देहरादून परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

मूपेन्द्र सिंह बोरा,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी, 2024 ई0 (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 28, 2023

No. 418/XIV-a-48/Admin.A/2020--Shri Vishal Goyal, Judicial Magistrate-II, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 20.10.2023 to 03.11.2023.

NOTIFICATION

December 28, 2023

No. 419/XIV-a-48/Admin.A/2020-Shri Vishal Goyal, Judicial Magistrate-II, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 10.11.2023 to 20.11.2023.

NOTIFICATION

December 28, 2023

No. 420/XIV-a-49/Admin.A/2020--Shri Vikas Kumar, Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 30.10.2023 to 02.11.2023.

NOTIFICATION

December 28, 2023

No. 421/XIV-a-36/Admin.A/2016--Shri Rajendra Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, District Almora is hereby sanctioned medical leave for 21 days w.e.f. 30.10.2023 to 19.11.2023.

NOTIFICATION

December 28, 2023

No. 422/XIV/82/Admin.A/2003--Ms. Pritu Sharma, the then 2nd Additional District Judge, Nainital, presently posted as Additional District & Sessions Judge, Vikasnagar, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 03.10.2023 to 21.10.2023 with permission to suffix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Vigilance)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE
(C.M.S.D. SECTION) UTTARAKHAND, DEHRADUN

NOTIFICATION NO 01/2024 (M)

RATE CONTRACT OF MEDICINES

January 18, 2024

Letter No. 15 P/Store/25/2022/2903--In exercise of the power delegated in G.O. No 712/XXVIII-3-2019-15/2019 dated 27-09-2019 the rate contract of medicine mentioned in Annexure 'B' is made with the firms mentioned in Annexure 'A' for the supply in the state Government in Medical & Health services Department for the period ending on the following terms and conditions:

1. The firms shall made supplies in manufactures original packing as indicated in column-3 of Annexure B for name of makes unless otherwise stated. The supplying firms will be required to clearly mention on the label the name of the manufacturer.
2. The firms will have to give a written warranty in accordance with drugs Act 1940 Rule 19 Para3 (8) to the effect that supplies confirm to the approved standard prescribed in the Drugs rule 1940 enforced and as given in this notifications.
3. Indenting Officers may place order direct on these firms as mentioned is attached Annexure A and B.

4. Delivery Schedule

The Purchaser requires that the medicine, surgical items and chemicals under the Rate Contract shall be delivered within six (06) weeks starting from the date of signing of the Purchase order.

5. All the Medicines/surgical items and chemicals to supply, shall not be older than 1/6th of interval of manufacturing and expiry date i.e. to say, if any medicine expires after 3 years of its manufacturing date, then at the time of supply the manufacturing date should not be more than 6 months old. Vaccines, biological products and imported medicines/surgical items, the remaining life should be 3/5th (60 %). In special circumstances, with approval of Director General, MH&FW, an exemption of 3 months may be accepted with the condition that if any of the item(s) may not be used before the date of expiry, the Bidder shall replace remaining quantity of such items, but remaining life of such items should be more than 50 %, for which Bidder had submitted an affidavit.

6. Packing of medicines/drugs/vaccines

- 6.1 Outside the cartons, all other type of packing's, each vials, ampoules, bottles, medicines & capsule's sterilized safe packing's, the supplier should clearly print U.K. GOVT. SUPPLY, NOT FOR SALE" with indelible ink.

6.2 The Supplier shall provide such packing of the Medicine, surgical items and chemicals as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the Contract. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling during transit and exposure to extreme temperatures, salt and precipitation during transit and open storage. Packing case size and weights shall take into consideration, where appropriate, the remoteness of the Medicine, surgical items and chemicals' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit.

6.3 The packing, marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements as shall be provided for in the Contract including additional requirements, if any, and in any subsequent instructions ordered by the Purchaser.

7. Transportation

Where the Supplier is required under the Contract to transport the Medicine, surgical items and chemicals to a specified place of destination i.e. consignee within in Uttarakhand, transport to such place of destination/consignee in Uttarakhand including insurance, as shall be specified in the Contract, shall be arranged by the Supplier, and the related cost shall be included in the Contract Price.

8. Quality of medicines

8.1 The Supplier shall mandatorily submit in house test report at the time of supply of medicine(s), surgical item(s) and chemical(s) for all the batches.

8.2 All medicine, surgical items and chemicals found of below standard shall be the responsibility of the Supplier.

8.3 Samples of all the batches of medicine, surgical items and chemicals supplied under Contract, shall be tested at reputed Government approved laboratories/institution.

8.4 Maximum permissible limit of the size of tablets, capsules, injection, syrup, iv fluids etc shall be up to rupees 1.0 lakh quantity-2 batches, above 1.0 lakh and up to 3 lakh quantity-5 batches, above 3.0 lakh and up to 5 lakh quantity-7 batches and above 5.0 lakh, -1 batch per lakh quantity. The cost incurred on above quality testing shall be borne by the Purchaser. If Supplier supplies medicines beyond above limit, additional cost incurred on the quality testing shall be deducted from the Bills of the Supplier.

8.5 The Supplier supplying vaccines, serum and biological products shall mandatorily submit a quality assurance certificate from Government laboratory.

8.6 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found below standard in testing, the supplier shall have to replace the full stocks of Indent / ordered medicine, surgical items and chemicals quantity, with fresh standard quality medicine, surgical items and chemicals, within 60 days, even if some part of the drug from received stock has been consumed.

8.7 Besides this, the Purchaser will be free to take actions against the Supplier for any compensation.

8.8 The Supplier may be blacklisted and/or debarred, for a product purchased by indenter, is declared SUB STANDARD, for producing wrong documents, non supply of medicine, surgical items and chemicals under contract or any other errors. The duration of blacklist and/or debar shall be for 3 years.

8.9 If supplied medicine, surgical items and chemicals are found of below standard in testing, in such case all the cost incurred in testing will be borne by the Supplier.

9. Payments

Payment for Medicine, surgical items and chemicals and Services shall be made as follows:

9.1 The Supplier's request(s) for payment shall be made to the Purchaser in writing, accompanied by an invoice in triplicate copies describing, as appropriate, the Medicine, surgical items and chemicals delivered and the Services performed, and upon fulfillment of other obligations stipulated in the contract.

9.2 In case the consignee is other than I/C Central Ware House Dehradun, then the invoice/bill, in triplicate should have receiving from the consignee(s), along with stock book page entry, duly verified, signed and stamped by consignee(s).

9.3 Ninety percent (90%) of the contract price shall be paid within one month of receipt of Invoice as described above of Medicine, surgical items and chemicals from the consignee (s)

9.4 The invoice shall be raised after complete supply of the Medicines, Surgical Items and Chemicals etc. as per the Purchase Order. Part payment will not be done for a Purchase Order.

9.5 From the supplied product the purchaser will collect samples of all batches on random basis and these samples shall be sent to the State government approved testing center Laboratories. After receiving the successful test results i.e. found of standard quality, the balance payment of 10% shall be released within 30 days.

9.6 After opening of each Bid and up to the Contract Period, any change in the tax rates shall be applicable as per the Government Orders.

9.7 Those manufacturer or supplier who does not have Depot/C&F in Uttarakhand, they can supply their product only after they enter into a contract with a local distributor, and will supply their product through such distributor. The bill will be accepted from distributor of Uttarakhand State only.

10. Delays in Supplier's performance

10.1 Delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of the Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by the Purchaser in the Schedule of Requirements/ purchase order.

10.2 If at any time during performance of the Contract, the Supplier or its sub-contractor(s) should encounter conditions impeding timely delivery of the Medicine, surgical items and chemicals and performance of Services, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing about the fact of the delay, it's likely duration and its cause(s). As soon as practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation and may, at its discretion, extend the Supplier's time for performance with or without liquidated damages, but to a maximum of 21 days.

11. Liquidated damages

If the Supplier fails to deliver any or all of the Medicine, surgical items and chemicals or to perform the Services within the period(s) specified in the Contract, the Purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the Contract, 0.5% per week shall be deducted of the cost of Medicine, surgical items and chemicals on unperformed Services which are not supplied/ performed as per the time schedule. Maximum deduction shall be 10 % of total cost of Contract amount and DG, Medical Health shall be intimated for, further actions which may be termination of the Contract and the Performance Security of the Bidder may be forfeited whole or proportionate.

12. Force majeure

(A) The Supplier shall not be liable to forfeit its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that, it's delay in performance or other failure to perform its obligations under the Contract is the result of an event of Force Majeure.

- (B) For purposes of this Clause, "Force Majeure" means an event beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier's fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not limited to, acts of the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.
- (C) If a Force Majeure situation arises, the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing, the Supplier shall continue to perform its obligations under the Contract as far as is reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.
13. The supplying firms will Emboss/Print U.K.G Supply Not for Sale will be printed on each label of the Bottle/Vials/Strips/Boxes or Cartons etc. No supplies should be accepted if such embossing & Printing is not done on the supplies.
14. Every care has been taken to see that rates quoted and approved have been correctly notified in the Notification but in case of any discrepancy either in rates or in specification or any nature in other details, it will be the duty of the firm that they should intimate to the C.M.S.D. DG Medical Health under registered cover latest within a month so that necessary action may be taken.
15. The Firms while sending the bills will certify that the rates charged are applicable and have also been approved by the CMSD and in case of any default they are prepared to make adjustments.
16. The firms should also certify on the bills that the supplies are according to specification and the makes approved by the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand and are in accordance with the latest DRUG ACT.
17. The attention of the Indenting Officers is drawn to the various lists of items published by the firms. It has been found that in some cases the firms includes unapproved items in their lists of approved items. It is responsibility of the Indenting Officers to consult the Gazette Notification before placing the actual order and see that the order for only approved items is placed. Such cases of misrepresentation should immediately be brought to the notice of Director General of Medical Health & F.W. Uttarakhand (CMSD) Dehradun sending copy of the list printed, by the particular firms. In case any firm is found doing so, strict action will be taken against them and their names will be deleted from Rate Contract without any notice to them and in addition they may be debarred.
18. No Assistance will be provided for release of the raw material or procurement of import license.
19. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand CMSD Dehradun reserves the right to call Tender for Quantity Contract or parallel Rate contract and also to finalize them at any time during the period of the rate contract.
20. It will be condition of the contract that although during the currency of the contract the price approved in this rate Contract arrangement will remain firm but however in the event of prices going down the contractor will promptly furnish such information to enable this office to amend the contracted rates for supplies at Rate lower than the rate contract, the attention of the firm is drawn to it.
21. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun or his authorized representative may inspect the premises of the manufacturing units to assess and verify that the item quoted as own made are actually manufactured by them.
22. All supplies shall have to be made strictly confirming to approved specification in accordance with the latest drug Act and Drug Act 1940.
23. If, during the Contract period, the Firm under Contract supplies any Medicine(s), Surgical Item(s) or Chemical(s), to any individual, institution, organization, state or any department or organization of

GoI and/or State at the rate lesser than the rate under Rate Contract, in such case the Firm shall immediately inform the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun and supply at the same reduced rate. The above stipulation will not however apply

- a. Exports by the Contractor.
- b. Sale of goods as original goods at a price lower than the price charged for normal replacement.

24. Supplies must be completed within six weeks (42 days) from the date of issue of the Purchase Order from the Indenting Officers. If the Firm does not supply within six weeks (42 days) time from the date of issue of the Purchase Order from indenting officer, a further period can be extended up to three weeks if the firm apply for such extension before the expiry of six weeks (42 days) time giving valid satisfactory reasons. In case of non supply, the names of such defaulting firms should be intimated to CMSD section of the Directorate by registered post so that the necessary action against the firm.
25. All supplies shall be made as per IP/ BP or USP/ BPC whenever this has been Omitted due to printing error wise it shall be or other as per IP and in its absence BP taken for all purpose that supplies are to make as per IP.
26. Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun authorizes the Drug controller of the State his access him to prosecute and take suitable action against firms defaulting as per drug act or per terms of contract.
27. During the pendency of contract if the license is withdrawn or any other action is taken by Drug Controller or his agent etc. the contract shall automatically come to a close with the firm. Against whom the action is being taken, firms shall see that they have valid drug license for the products approved in their favour and which they may supply during its pendency else they themselves shall be responsible for the same.
28. In the event of the prices being gone down the contracting firm may please intimate the same to the Director General Medical of Health services Uttarakhand Dehradun immediately for issuing necessary corrigendum in this regards and they will also charge the reduced rates from the Indenting Officers of the State. In case such information is received from the contracting firm that they are selling items approved in their favour at reduce rates either in open market or anywhere else. The Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun reserves the right to cancel the items of entire contract finalized with them and to debar the firm from further tendering.
29. This contract shall exclusively be governed by the terms and conditions mentioned in this notification the relevant conditions mentioned in the tender notice CMSD, tender form and relevant conditions mentioned in the agreement form (sent to the firm along with acceptance letter separately)
30. The Indenting Officers are advised to report the damages /defects notice in supplies to suppliers for notification repair replacement as the case may be, within fifteen days of the receipt / of the material.
31. In case of any complaint against the supplier for delay in supplies or defective supplies etc. The Indenting Officers are advised to report the matter under registered post to the Director General Medical Health & F.W. Uttarakhand Dehradun (CMSD) Section promptly for necessary action by registered post/e-mail.

NOTIFICATION No. 01/2024 [M]

Enclosure of Notification no. 15P/Store/25/2022/ 2903

Dated January 18, 2024

ANNEXURE 'A'

SN	Name of Firm	Phone No./Fax No. & E-mail
1	M/s Lupin Limited 1/47, Prag Narian Road, Lucknow- 226001.	Tel no/(M no.) : 022-66402323, 9811210616, 9319161610 e-mail: jayantchatterjee@lupin.com
2	M/s Galaxy Medicare Limited., Plot No. 2, Zone-D, Phase-A, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751010	Tel no/(M no.) : 7064810000 e-mail: info@galaxy.in
3	M/s Novo Nordisk India Pvt. Ltd, Plot no. 32, 47-50, EPIP Area, Whitefield, Bangalore- 560 066	Tel no/(M no.) : 91-8040303200, 9934300408, 9319642690 e-mail: vsed@novonordisk.com, institutionsales@novonordisk.com
4	M/s JUGGAT PHARMA, No. 782, 15th Cross, I Phase, J.P. Nagar, Bangalore-560078, Karnataka.	Tel no/(M no.) : 080-26635026, 26635631 e-mail: gopalkrishnavs@agdale.com
5	M/s BIOLOGICAL E LTD, 18/1&3, Azamabad, Hyderabad-500020, Telangana.	Tel no/(M no.) : 080-26635026, 26635631 e-mail: gopalkrishnavs@agdale.com
6	M/s Troikaa Pharmaceuticals Limited, Troikaa House 1, Satya Marg, Bodakdev, Ahmedabad-380054, Gujarat.	Tel no/(M no.) : 079- 26856242-45 e-mail: institution.sales@biologicale.com, yuvraj.singhbnhatnagar@biologicale.com
7	M/s ZEE LABORATORIES LTD., 913 D-Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-34	Tel no/(M no.) : 09412206937, 07055000112 e-mail: info@zeelab.co.in, sales@zeelab,
8	M/s JOHNSON AND JOHNSON PVT LTD., LBS Marg, Mulund (W), Mumbai-400080	Tel no/(M no.) : 9999794944 e-mail: agupt107@its.jnj.com
9	M/s Medley Pharmaceuticals Ltd., Lane No 3, Phase-I, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahman, Jammu-181133	Tel no/(M no.) : 9322244643 e-mail: tdkkrishna@gmail.com, ananda.mhopare@medleylab.com
10	M/s Boehringer Ingelheim India Private Limited, Unit No. 202 & Part of Unit No. 201, 2nd Floor Godrej 2, Pirojsha Nagar, Eastern Express Highway, Vikhroll (E), Mumbai-400079.	Tel no/(M no.) : 91-9871629529 e-mail: pmibtender.in@behringerengelheim.com, abhinav,kaushik@behringerengelheim.com,

11	M/s Bal Pharma Ltd., 10/1, 5th Floor, Laxmi Narayan Complex, Palace Road, Bangalore-560052. Karnataka.	Tel no/(M no.) : 080-41379527, 9480811168 e-mail: rajesh@balpharma.com
12	M/s WALLACE PHARMACEUTICALS PVT. LTD., A-303/312, Floral Deck Plaza, off Central MIDC Road, Andheri (E), Mumbai-400093.	Tel no/(M no.) : 9559666644 e-mail: ramesh.wallacepharma2011@gmail.com
13	M/s PURE AND CURE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 305, Mohan Place, L.S.C., Block-C, Saraswati Vihar, New Delhi-110034	Tel no/(M no.) : 91-8860881221 e-mail: expansion@akums.net
14	M/s East african (india) overseas, Plot No. 1, Pharmacy, Selaqui, Dehradun.	Tel no/(M no.) : 0135-2699211, 9927900922 e-mail: deepak.mishra@earindia.com
15	M/s Inventia Healthcare Limited, 703, 704 Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Andheri (E), Mumbai-400069.	Tel no/(M no.) : 91-7895981024, 07738732387 e-mail: institution@inventiahealthcare.com, purna.maharana@inventiahealthcare.com,
16	M/s ENCUBE ETHICALS PRIVATE LIMITED, 803, B Wing, HDIL Kaledonia, Sahar Road, Andheri (E), Mumbai-400069.	Tel no/(M no.) : 9892101039, 982053157 e-mail: institution@encubeethicals.com
17	M/s HEALTH BIOTECH LTD., SCO-162-164, Air India Bulding, Sector-34 A, Chandigarh-160022.	Tel no/(M no.) : 0172-4685300-303, 0172- 2620688 e-mail: gaurav@healthbiotech.in, inst@healthbiotech.in
18	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd., C-20, Sector-63, Noida-201301 U.P.	Tel no/(M no.) : 9999921280 e-mail: medipoldel@gmail.com
19	M/s Apple Formulations Pvt.Ltd., Flat No. 24-C, 2nd Floor, Pocket-B, Sector-G, mayor Vihar-III, Delhi-110096	Tel no/(M no.) : 9719660100, 9659208664 e-mail: appleformulations@gmail.com
20	M/s Cipla Ltd., Cipla House, peninsula Bussiness park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.	Tel no/(M no.) : 9814774123, 9506692389 e-mail: amit.chauhan1@cipla.com, prashant.gupta@cipla.com
21	M/s Bharat Serums and Vaccine Ltd., 3rd Floor, Liberty Towers, Plot No. K-10, Behind Reliable Plaza, Kalwa Industrial Estate, Airoli, Navi Mumbai-400708	Tel no/(M no.) : 9967657228 e-mail: institution@bsvgroup.com
22	M/s DAFFOHILS LABORATORIES PVT. LTD., F-109-110, UPSIDC, Industrial Area, Selaqui, Dehradun, Uttarakhand.	Tel no/(M no.) : 9412054069, 7986215212 e-mail: cmddaffohils@gmail.com, chhabraumangi@gmail.com

23	M/s Alpha Drugs A-2/57, Safdarjung Enclave, New Delhi	Tel no/(M no.) : 91-11- 41653364/41653367, e-mail: info@alphadrugs.co.in
24	M/s Takeda Biopharmaceuticals India Private Limited, (formerly known as M/s Baxalta Bioscience India Pvt. Ltd.), 6th Floor, Tower C, Building No. 8, DLF Cyber City, DLF Phase-II, Gurugram	Tel no/(M no.) : 91-124-4559100 e-mail: takeda.tenders@takeda.com
25	M/s Biocon Biologics Limited, Biocon House, Tower-3, Semicon Park, Electronic City, Phase-II, Hosur Road, Bengaluru-560100	Tel no/(M no.) : 91-8067756775, e-mail: contactus.BBL@biocon.com
26	M/s Hetero Healthcare Limited, S.no. 80-84, Melange Towers, 4th Floor, C-Wing, Patrika Nagar, Madhopur, Hyderabad- 500081	Tel no/(M no.) : 9359208664 e-mail: brijeshkumar@heterohealthcare.com
27	M/s Samkem, 15-B, Akvn Industrial Area, Rangwasa Rao Indore (M) 453331	Tel no/(M no.) : 0731-2856222, 9993338076, 9685040452 e-mail: samkempharma2017@gmail.com
28	M/s Cotec Health Care Pvt Ltd, Roorkee- Dehradun Road, Kishanpur, Roorkee, Dist Haridwar	Tel no/(M no.) : 7454801520, 9956382331 e-mail: cotecpharma@yahoo.co.in, office@cotecpharma.com

ANNEXURE 'B'

Enclosure of Notification no. 15P/Store/25/2022/ 2903

Dated: January 18, 2024

List of medicines/items approved in Rate Contract, validity period and description of Consignee

VALID FROM 18.01.2024 to 17.01.2026

SN	Name of medicines	Pack form	Name of firm	Rate per unit without taxes at F.O.R. Destination in Uttarakhand (In INR only)	Tax/Duties (INR)	Rate per unit With Tax for F.O.R. Destination in Uttarakhand (including all taxes) (in INR only)	Consignee/ State Drug Warehouse
1	2	3	4	5	6	7	8
1	INDACATEROL 110 MCG +GLYCOPYRRONIUM 50 MCG	3x10 cap with 1 Inhaler	M/s LUPIN LIMITED	18.96	2.28	21.24	F.O.R
2	Plaster of Paris Bandages BP 10cm X 2.7mts / Roll	Roll	M/s Galaxy Medicare Limited	22	2.64	24.64	F.O.R
3	Plaster of Paris Bandages BP 15cm X 2.7mts / Roll	Roll	M/s Galaxy Medicare Limited	32	3.84	35.84	F.O.R
4	Oral Semaglutide 14mg Tab	1x10	Novo Nordisk India Private Limited	267.03	32.042	299.072	F.O.R
5	Sterile Haemocoagulase solution -0.2CU Botroclot Topical solution, Each ml contains aqueous solution of Haemocoagulase isolated from Bothrops atrox or Bothrops jararaca-0.2CU Chlorhexidine Gluconate solution IP(as preservative) 0.1% v/v water for injection IP q.s.	10 ml bottle	JUGGAT PHARMA	97.2	11.66	108.86	F.O.R
6	T.T. Vaccine 0.5 ML. Inj.	amp	BIOLOGICAL E LTD	8.6	0.44	9.04	F.O.R
7	Etomidate Inj.(Single)	vial	Troikaa Pharmaceuticals Limited	312	37.44	349.44	F.O.R
8	Dexamethasone Injection 8 mg/2ml	2 ml Vial	ZEE LABORATORIES LTD.	2.75	0.33	3.08	F.O.R
9	Risperidol consta Inj.	amp	JOHNSON AND JOHNSON PVT LTD	5971	716.52	6687.52	F.O.R
10	Paliperidone Inj.	amp	JOHNSON AND JOHNSON PVT LTD	7035	844.2	7879.2	F.O.R
11	Glyceryl Trinitrate 0.4 mg Per Metered Dose (200 Metered Dose Spray Bottle)	bottle	Medley Pharmaceuticals Ltd.	230	27.6	257.6	F.O.R
12	Empagliflozin 10mg Tab	1x10	Boehringer Ingelheim India Private Limited	31.75	3.81	35.56	F.O.R
13	Empagliflozin +Linagliptin 25mg+5mg Tab	1x10	Boehringer Ingelheim India Private Limited	58.5	7.02	65.52	F.O.R
14	Metformin SR 1000 mg tab	1x10	Bal Pharma Ltd	0.88	0.11	0.99	F.O.R
15	Calcium Citrate 1000 mg + Vit D3 IP 500 IU tab	1x10	Bal Pharma Ltd	3.24	0.39	3.63	F.O.R
16	Cinnareizine 25 tab	1x10	WALLACE PHARMACEUTICALS PVT LTD	0.53	0.06	0.59	F.O.R
17	Chlorthalidone 6.25 mg tab	1x10	PURE AND CURE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	0.35	0.04	0.39	F.O.R
18	Cilnidipine 10 mg + Telmisartan 40 mg tab	1x10	PURE AND CURE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	0.91	0.1	1.01	F.O.R

19	Terbinafin 250 mg tab	1x10	PURE AND CURE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	2.26	0.28	2.54	F.O.R
20	Carboxymethyl cellulose eye drop 0.5%	10 ml	East african (india) overseas	6.5	0.78	7.28	F.O.R
21	Moxifloxacin + Iteprednol eye drop	5ml	East african (india) overseas	22.5	2.7	25.2	F.O.R
22	Aceclofenac 200 mg SR+ Thicolchicoside 8 mg SR Capsules	1x10	Inventia Healthcare Limited	5.4	0.65	6.05	F.O.R
23	Metformin SR 500 mg tab	1x10	Inventia Healthcare Limited	0.65	0.08	0.73	F.O.R
24	Framycetin Sulphate IP 1% w/W, Preservatives Methyl Paraben P 0.08% w/W, Propyl Paraben IP 0.04% w/W (30gm), Skin Cream	tube	ENCUBE ETHICALS PRIVATE LIMITED	29.47	3.54	33.01	F.O.R
25	Framycetin Sulphate IP 1% w/W, Preservatives Methyl Paraben P 0.08% w/W, Propyl Paraben IP 0.04% w/W (100gm), Skin Cream	jar	ENCUBE ETHICALS PRIVATE LIMITED	91.3	10.96	102.26	F.O.R
26	Esmolol Inj.	vial	HEALTH BIOTECH LTD	90.7	10.88	101.58	F.O.R
27	Propofol Injection 10 mg/ml	10 ml Vial	HEALTH BIOTECH LTD	24.07	2.89	26.96	F.O.R
28	Thiopentone Sodium Injection 1 g	Vial	HEALTH BIOTECH LTD	53.49	6.42	59.91	F.O.R
29	Lignocaine Injection 2%	30 ml Vial	HEALTH BIOTECH LTD	9.07	1.09	10.16	F.O.R
30	Lignocaine HCL 2 % + Adrenaline Injection 2 % injection	30 ml Vial	HEALTH BIOTECH LTD	9.88	1.19	11.07	F.O.R
31	Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection 5mg/ml	4 ml Amp	HEALTH BIOTECH LTD	6.86	0.82	7.68	F.O.R
32	Promethazine Injection 25 mg/ml	2 ml Amp	HEALTH BIOTECH LTD	4.07	0.49	4.56	F.O.R
33	Tobramycin eye drop 0.3%	5 ml	HEALTH BIOTECH LTD	6.76	0.34	7.1	F.O.R
34	Oseltamivir 75 mg capsule (each capsule contains Oseltamivir Phosphate equivalent to Oseltamivir 75 mg)	Unit Cap/Tab	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	14.73	1.76	16.49	F.O.R
35	Glyceryl Trinitrate Tablets 2.6 mg	Unit Cap/Tab	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	0.88	0.12	1	F.O.R
36	Alprazolam Tablets 0.25 mg	Unit Cap/Tab	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	0.32	0.04	0.36	F.O.R
37	Sertaconazole Nitrate BP 500 mg Excipients q.s. tab	1x10 Tab	M/s Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	274	32.88	306.88	F.O.R
38	Ofloxacin 50mg + Metronidazole 100 mg syrup	bottle	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	8.42	1	9.42	F.O.R
39	Ebastin 10 mg tab (Single)	1x10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	0.58	0.06	0.64	F.O.R
40	Amlodipine 10mg + Telmisartan 80 mg tab	1x10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	1.57	0.18	1.75	F.O.R
41	Mometasone furoate IP 0.1% w/w	15gm	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	6.98	0.82	7.8	F.O.R
42	Beclomethasone lotion	bottle	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	9.73	1.16	10.89	F.O.R
43	Coaltar + Salicylic acid cream	tube	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	33.74	4.04	37.78	F.O.R
44	Sertaconazole Nitrate BP 2% w/w Beclomethasone Dipropionate IP 0.025% w/w Cream Base q.s Preservative: Benzyl Alcohol IP 1.0% w/w Ointment	tube	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	93	11.16	104.16	F.O.R
45	Ofloxacin 0.3% + dexamethasone 0.1% ear drop	phial	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	6.96	0.82	7.78	F.O.R

46	Paradichloro benzene 2%, Benzocain 2.7%, chlorbutol 5%, turpentine oil 15% with dropper	10 ml Vial	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	7.95	0.94	8.89	F.O.R
47	Triamcilone mouth gel	tube	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	6.98	0.82	7.8	F.O.R
48	Qutipin 50mg	1x10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	1.44	0.16	1.6	F.O.R
49	Lorazeopam tab 2 mg	1x10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	0.94	0.1	1.04	F.O.R
50	Carbanazepine tab 200mg	1x10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	3.74	0.44	4.18	F.O.R
51	Levetiracetam syrup	100 ml	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	54	6.48	60.48	F.O.R
52	Escitalopram 10 mg tab	1x10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	0.4	0.04	0.44	F.O.R
53	Fluoxetine 40 mg tab	1x10	Medipol Pharmaceutical India Pvt. Ltd.	1.37	0.16	1.53	F.O.R
54	SALMETEROL 25 mcg + FLUTICASONE PROPIONATE 250 mcg breathe acculated inhaler	per	Cipla Ltd	536	64.32	600.32	F.O.R
55	SALMETEROL 50 mcg + FLUTICASONE PROPIONATE 250 mcg ciphaler	per	Cipla Ltd	486	58.32	544.32	F.O.R
56	GLYCOPYRRONIUM 25MCG+ FORMOROL FUMARATE DIHYDRATE 12MCG rotocap	per	Cipla Ltd	245	29.4	274.4	F.O.R
57	Itraconazole Capsules 200 mg	4 Cap	M/s Apple Formulations Pvt.Ltd.	14.4	1.72	16.12	F.O.R
58	Paracetamol 250mg syrup	bottle	Apple Formulations Pvt.Ltd.	7.97	0.96	8.93	F.O.R
59	Deflazacort 6mg	1x10	Apple Formulations Pvt.Ltd.	1.71	0.2	1.91	F.O.R
60	Rabeprazole 20mg (EC) + Levosulpride 75mg SR tab	1x10	Apple Formulations Pvt.Ltd.	1.14	0.14	1.28	F.O.R
61	Citicoline 500mg tab	1x10	Apple Formulations Pvt.Ltd.	8.64	1.04	9.68	F.O.R
62	Piracetam 800 mg	1x10	Apple Formulations Pvt.Ltd.	1.96	0.24	2.2	F.O.R
63	Tab Baclofen 10mg, 20 mg	1x10	Apple Formulations Pvt.Ltd.	0.39	0.04	0.43	F.O.R
64	Levosulbutamol syrup	phial	Apple Formulations Pvt.Ltd.	8.74	1.04	9.78	F.O.R
65	Multivitamin + DHA drop	phial	Apple Formulations Pvt.Ltd.	9.9	1.18	11.08	F.O.R
66	Pregabalin-75	1X10	Apple Formulations Pvt.Ltd.	0.78	0.1	0.88	F.O.R
67	Rabies Antiserum IP (Equine) (I.M./SC use) 300 units / ml	5 ml Vial	M/s Bharat Serums and Vaccine Ltd	290	14.5	304.5	F.O.R
68	Telmisartan 40 mg+Amlodepin 5 mg	Tablet	M/s DAFFOHILS LABORATORIES LTD	0.7	0.16	0.86	F.O.R
69	Metoprolol Tablets (Extended Release) 50mg	Unit Cap/Tab	M/s DAFFOHILS LABORATORIES LTD	0.32	0.08	0.4	F.O.R
70	Telmisartan 40 mg+Hydrochlorthiazide 12.5 mg	Tablet	M/s DAFFOHILS LABORATORIES LTD	0.58	0.14	0.72	F.O.R
71	Human Coagulation Factor X	per	M/s Alpha Drugs	1,17,600.00	5880	1,23,480.00	F.O.R
72	Recombinant Coagulation Factor IX 500 IU	per	M/s Baxalta Bioscience India Pvt. Ltd.,	12,125.00	606.25	12,731.25	F.O.R
73	Recombinant Coagulation Factor IX 1000 IU	per	M/s Baxalta Bioscience India Pvt. Ltd.,	24,250.00	1212.5	25,462.50	F.O.R
74	Long Acting Factor VIII-Extended Half-life 500 IU	per	M/s Baxalta Bioscience India Pvt. Ltd.,	8,470.00	423.5	8,893.50	F.O.R
75	Long Acting Factor VIII-Extended Half-life 1000 IU	per	M/s Baxalta Bioscience India Pvt. Ltd.,	16,940.00	847	17,787.00	F.O.R

76	Human Insulin Injection Solution Cartridge Each ml Contains Insulin Human 100 IU, Mix 30/70	vial	M/s Biocon Biologics Limited,	115	5.76	120.76	F.O.R
77	Insulin Glargine Injection 100IU/ml (3ml vial)	vial	M/s Biocon Biologics Limited,	218	10.9	228.9	F.O.R
78	Letrozole 2.5 mg	1x10	M/s Hetero Healthcare Limited,	1.64	0.2	1.84	F.O.R
79	IFA Syrup (50 ml) & Auto dispenser for child Health Programme (for children 6 to 59 month)	50 ml	M/s Cotec Health Care Pvt ltd	6.99	0.84	7.83	F.O.R
80	Tab Zinc Sulphate 20 mg dispersible (for child health programme)	1x14 tab	M/s Cotec Health Care Pvt ltd	0.13	0.02	0.15	F.O.R
81	Glucose pouch 75 gm	75 gm pouch	M/s Samkem	8.46	1.01	9.47	F.O.R

VINITA SHAH,
Director General.

**कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
कार्यालयादेश**

04 अक्टूबर, 2023 ई0

पत्रांक-1452/निलम्बन/2023-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह/छः माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलॉडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहरताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री सलीम खान पुत्र अशरफ खा, वार्ड-04, टनकपुर(चम्पावत)	UK0320130016381	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 04.10. 2023 से दिनांक 03.01. 2024 तक
2	श्री राम सिंह मुत्र श्री धर्म सिंह, म.न. 431 ग्राम भजन पुर पोस्ट, चन्दनी	UK0320160029083	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री नाथू राम पुत्र श्री गंगा राम, नकूलिया, सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर	UK0620200004923	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री सूनील पुत्र श्री बनकट, ग्राम बाजीपुर, अल्लाहगंज, जलालाबाद, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश	UP2720150014448	प्रवर्तन दल टनकपुर	प्रर्शर हार्न का प्रयोग करना	उपरोक्तानुसार
5	श्री मनीष जोशी पुत्र श्री मोहन चन्द्र जोशी, चम्पावत धूरा, मुरारी, जनपद चम्पावत।	UK03200230003687	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री बिपिन कुमार पुत्र श्री कृष्णन, ग्राम घगोरिया, ककेन्द्री शहर कोतवाली, हरदोई (उ.प्र.)	UP3020200014539	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार

7	श्री प्रीतम बहादुर पुत्र श्री हरीश बहादुर, सी- 148 गादीपूर, दिल्ली।	DL1020140121503	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
8	श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह, वार्ड नं- 02 चन्द कालोनी, टनकपुर(चम्पावत)	UK0320130014432	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
9	श्री हरप्रीत सिंह पुत्र श्री गलकीत सिंह, गांगी, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर	UK0320220004064	प्रवर्तन टनकपुर	दल	दोपहिया में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
10	श्री तजीम पुत्र अतीक अहमद, इस्लाम नगर, उमरखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0320170038690	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
11	श्री याकूब पुत्र मो. आलम, बिरिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0320210001100	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग।	उपरोक्तानुसार
12	श्री नईम बक्श पुत्र श्री हमिद बक्श, शास्त्रीनगर, टनकपुर जनपद चम्पावत।	UK0320090002817	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
13	श्री सुरेश चन्द्र पुत्र नरेन्द्र-चन्द, पूर्वी बिचई, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320060001763	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
14	श्री विनोद राम पुत्र श्री जोगा राम, थूवामहर, पोस्ट लोहाघाट जनपद चम्पावत।	UK0320030012986	प्रवर्तन टनकपुर	दल	शराब पीकर वाहन का संचालन	दिनांक 04.10. 2023 से दिनांक 03.04. 2024 तक
15	श्री अकरश सक्सेना पुत्र श्री कैलाश कुमार, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320210003654	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 04.10. 2023 से दिनांक 03.01. 2024 तक
16	श्री जावेद साह पुत्र श्री अखलक साह, मीना बाजार, बनबसा जनपद चम्पावत।	UK032023000696	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
17	श्री गीता बोहरा पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह, खेतखेड़ा, पोस्ट टनकपुर जनपद चम्पावत।	UK0320220006556	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
18	श्री अमर सिंह पुत्र श्री रामपाल, ग्राम थुवालखेड़ा, पोस्ट टनकपुर जनपद चम्पावत।	UK0320220002368	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
19	श्री विद्यांशु विश्वकर्मा पुत्र संजीव कुमार, भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK0320210005263	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
20	श्री किशनपाल पुत्र रामरवर दयाल, नायकगोठ, टनकपुर जनपद चम्पावत।	UK0320210002756	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
21	श्री मुकेश बहादुर पुत्र श्री प्रेम बहादुर, ग्राम नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320210001374	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार

22.	श्री प्रेम बल्लभ पुत्र चन्द्र बल्लभ, ग्राम छिनकी, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0320140021024	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
23.	श्री दीपक भट्ट पुत्र श्री गणेश दत्त, ग्राम एवं पोस्ट अमोड़ी चम्पावत जनपद चम्पावत।	UK0320160031073	पुलिस चम्पावत।	वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
24.	श्री लोकेश चन्द पुत्र खेमराज चन्द, भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK0320220001296	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
25.	श्री दीपक चन्द पुत्र खीम चन्द, गदर पप्ला रोरी, पिथौरागढ़, रोरीपाली, पिथौरागढ़	UK0420000104119	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
26.	श्री बल्लू सिंह बोहरा पुत्र चन्द्र सिंह बोहरा, पंचपखरिया, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK0320110008280	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
27.	मो. अमन पुत्र नवी हुसैन, नियर खनका इस्लाम नगर, उमरुखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0620220000384	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
28.	श्री प्रयाग सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, चल्थी दियूरी, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK0420060095852	प्रवर्तन दल टनकपुर	प्रर्शर हार्न का प्रयोग	उपरोक्तानुसार
29.	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री राम कुमार, ग्राम सियाबाड़ी, पट्टी, जहाँनाबाद, जनपद पीलीभीत	UP2620160005483	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
30.	श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री रोहन सिंह, Geglamau मियागंज, हसनगंज, उन्नाव, उ.प्र.	UP3519990002464	प्रवर्तन दल टनकपुर	प्रर्शर हार्न का प्रयोग	उपरोक्तानुसार
31.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री झनझन लाल, ग्राम नकुन्ड, चन्दोई, कोतवाली, पीलीभीत, उ. प्र.	UP2620060053526	प्रवर्तन दल टनकपुर	प्रर्शर हार्न का प्रयोग	उपरोक्तानुसार
32.	श्री मनोज कुमार जोशी पुत्र शान्ति प्रसाद जोशी, बिलडरी, चकरपुर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0320220003379	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
33.	श्री दीपक सिंह बरोड़ा पुत्र श्री मदन मोहन सिंह बरोड़ा, पंचपखरिया, जनपद चम्पावत।	UK0320220002697	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
34.	श्री हरीश चन्द्र सनवाल पुत्र श्री खष्टी दत्त सनवाल, ग्राम कटरा पटलिया, धारी, नैनीताल	UK0420100028297	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
35.	श्री सौरभ निषाद पुत्र तीर्थ राम, गायत्री नगर, नौ बस्ता खुर्द, Madiyoon, लखनऊ, उ.प्र.	UP3220089013776	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
36.	श्री नदीम अहमद पुत्र श्री मोहम्मद सबीर, इस्लाम नगर, वार्ड नं. 03, उमरुखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0320210005374	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार

37.	श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री बहादूर चन्द, झनकट, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0620190008876	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
38.	श्री महावीर सिंह पुत्र श्री दया राम, चन्देली, नौगवाठगू, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0620180005814	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
39.	श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री सूरज पाल, भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK0320190000391	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
40.	श्री अकलक हुसैन पुत्र श्री आबिद हुसैन, मनिहारगोद, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320190000357	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
41.	श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री दीवान राम, गैडाखाली नं 04, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320220002799	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
42.	श्री कैलाश सिंह डिगरी पुत्र श्री कृष्णा सिंह डिगरी, ग्रा Malannadu, तहसील डीडिहाट, जनपद पिथौरागढ़।	UK0520160025278	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
43.	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री आछेला, बगुलिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0320160032426	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना।	उपरोक्तानुसार
44.	श्री दीपक चन्द पुत्र श्री गोविन्द चन्द, ग.न. 279, ग्राम आमबाग, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320130016891	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
45.	श्री निखिल आर्या पुत्र श्री दयाकिशन, कोशियाकूटोली, जनपद नैनीताल।	UK0120210004550	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
46.	श्री रंजन सोनी पुत्र श्री प्रदीप कुमार सोनी, शांति नगर, बिन्दुखत्ता, लालकुआँ, दोली रेन्ज, जनपद नैनीताल।	UK0420210009248	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
47.	श्री धर्म सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, चन्द फार्म, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK0320230006777	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
48.	श्री रवि कुमार पुत्र श्री कृष्णा, मीना बाजार पोस्ट चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK0320170035635	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
49.	श्री कमल किशोर मेहरा पुत्र श्री गौरव मेहरा, गुदमी, पोस्ट चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK0320150025348	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
50.	मो. शामून पुत्र मो. यासिन, पंचपखरिया, जनपद चम्पावत।	UK0320190000681	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
51.	शालु पुत्री श्री रनवीर कुमार, कैनाल कालोनी, बनबसा, कैनाल रेन्ज, जनपद चम्पावत।	UK0320230005536	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार

52.	मो. सलीम पुत्र मो. नवी हसन, उमरखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0320100003464	थाना झनकईया, पुलिस, जनपद ऊधम सिंह नगर।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
53.	श्री रविन्द्र चन्द पुत्र श्री त्रिलोक चन्द, ग्राम बिचई, तहसील पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत।	UK0320140020701	हैदराबाद तिलगाना पुलिस	शराब पीकर वाहन का संचालन।	दिनांक 04.10.2023 से दिनांक 03.04.2024 तक
54.	श्री राहुल विश्वकर्मा पुत्र श्री गंगा प्रसाद, चिडियादूंगा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK0320230003170	पुलिस जनपद चम्पावत	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 04.10.2023 से दिनांक 03.01.2024 तक
55.	श्री दीपक भट्ट पुत्र श्री नरोत्तम भट्ट, होटल तेजमन, चम्पावत, जनपद चम्पावत	UK03/3718/TNK/09	पुलिस जनपद चम्पावत	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
56.	श्री राहुल पाण्डे पुत्र श्री ललित पाण्डे, डुंगरासेठी, जनपद चम्पावत।	UK0320210004841	पुलिस जनपद चम्पावत	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
57.	श्री भुवन चन्द्र राय पुत्र श्री गोती राय, आर्गी पब्लिक स्कूल नं-02, रुड़की, हरिद्वार/ग्राम तल्लीहाट पोस्ट चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK1720150004536	पुलिस जनपद चम्पावत	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
58.	श्री जीवन जोशी पुत्र श्री महेश जोशी, ग्राम नधान कोतवाली, चम्पावत।	UK0320220006163	पुलिस जनपद चम्पावत	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
59.	श्री संजय सिंह बिष्ट पुत्र श्री धन सिंह बिष्ट, ग्राम शील, पोस्ट चौमेल, तहसील बाराकोट, जनपद चम्पावत।	UK0320160032303	पुलिस जनपद चम्पावत	शराब पीकर वाहन का संचालन एवं मल्टीटोन्ड हार्न का प्रयोग	दिनांक 04.10.2023 से दिनांक 03.04.2024 तक
60.	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र प्रसाद, ग्राम तितरी थाना अस्कोट, जनपद पिथौरागढ़	UK0520220003235	पुलिस जनपद चम्पावत	वाहन का संचालन खतरनाक तरीके से करना	दिनांक 04.10.2023 से दिनांक 03.01.2024 तक
61.	श्री अमय तिवारी पुत्र श्री नवीन तिवारी, ग्राम त्यारकुन्डा, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK0320230005229	पुलिस चम्पावत	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना तथा वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना	उपरोक्तानुसार
62.	श्री चंचल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम दुबड़जैनल, मंच, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK0320140018509	पुलिस चम्पावत	यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
63.	श्री प्रकाश सिंह बोहरा पुत्र श्री त्रिलोक सिंह बोहरा, ग्राम खुनाबोरा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK0320230005765	पुलिस चम्पावत	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
64.	श्री विजय कुमार पुत्र श्री राजकुमार शाह, ई-131 गणेश नगर, पाण्डव नगर काम्पलेक्स, अक्षरधाम, पटपड़गंज ईस्ट दिल्ली।	DL1220190016789	पुलिस चम्पावत	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
65.	श्री मनोज लाल पुत्र श्री दानी राम ग्राम कलचौड़ा थाना लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK0320050006379	पुलिस चम्पावत	यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार

66.	मो. समीम पुत्र मो. सलीम, लाल ईमली पड़ाव वार्ड 04 टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320200000067	पुलिस चम्पावत	यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
67.	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, ग्राम सल्ली थाना एवं जनपद चम्पावत।	UK0320220003702	पुलिस चम्पावत	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार

कार्यालयादेश

30 नवम्बर, 2023 ई0

पत्रांक-1693/निलम्बन/2023-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ ओवरलोडिंग/ ओवर स्पीड/ मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञाप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञाप्ति का निलम्बन (नवम्बर माह में परिवहन विभाग द्वारा) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री शाहिद रजा पुत्र श्री शाहजादे अली, वार्ड 14 इस्लाम नगर पकड़िया नौगाँव, पीलीभीत, उ.प्र.	UP2620220016601	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 30.11.2023 से दिनांक 29.02.2024 तक
2	श्री राम बहार सिंह पुत्र श्री शिव चरन सिंह, ग्राम रघुरामपुर उर्फ नया गोन्ध, बिजनौर, उ.प्र.	UP2020010045308	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री हिमाशु सिंह अधिकारी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी, डी-04 बरैकान्हा अपार्टमेंट सैक्टर 79 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध, उ.प्र.	UP1620220025851	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
4	मो. शाकिर पुत्र फिदा हुसैन, अरसियाबोझ, फरिदपुर, बहेड़ी, बरेली, उ.प्र.	UP2520220023571	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री आबिद हुसैन पुत्र श्री फकीर बक्श, इस्लाम नगर, उर्मलखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0320210003263	प्रवर्तन दल टनकपुर	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
6	श्री संजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, ग्रा भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK0320190001547	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
7	मो. याकुब पुत्र मतलूब हुसैन, ग्राम जैतपुर पट्टी, कुन्डाकी, मुरादाबाद, उ.प्र.	UP2120150015051	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
8	श्री साकिर पुत्र श्री साहिर, मोहल्ला इस्लाम नगर, बिजौरिया रोड, नवाबगंज, बरेली, उ.प्र.	UP2520040014106	प्रवर्तन दल टनकपुर	यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	दिनांक 30.11.2023 से दिनांक 29.12.2024 तक
9.	श्री शुभम तातरन पुत्र श्री ओमवीर सिंह, ग्राम किवाड पोस्ट साहसपुर किवाड, धामपुर, बिजनौर, उ.प्र.	UP2020220015102	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 30.11.2023 से दिनांक 29.02.2024 तक

10.	श्री प्रेमपाल पुत्र श्री सोहनलाल, ग्राम भैरुआ तहसील शाहबाद, रामपुर उ.प्र.	UP2220090007980	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
11.	श्री उत्कर्ष पुत्र श्री राम सिंह, वार्ड नम्बर 05, राजीव नगर, टनकपुर, जनपद चम्पावत	UK0320210004096	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
12.	श्रीमती रंजनी महार पत्नी श्री भगत सिंह गैडाखाली नम्बर 03, टनकपुर, जनपद चम्पावत	UK0320220004069	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
13.	श्री शाने अब्बारा पुत्र श्री नौरोज हसन, पंचपकरिया, पूर्णागिरी जनपद चम्पावत	UK0320180002670	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
14.	श्री दीपक चन्द्र पुत्र बसन्त बल्लभ, ग्राम नौगाना, पोस्ट गल्लागोव, तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK0320140022349	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
15.	श्री आशुतोष प्रताप सिंह पुत्र शेर सिंह, म.न. 119, ग्राम मोहनपुर, विष्णुपुरी कालोनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320140020522	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
16.	श्री वेदपाल पुत्र धर्मपाल, बिहारीपुर, प्रीतम राम ब्योलारिया, भीरगंज, बरेली, उ.प्र.	UP2520150014846	प्रवर्तन टनकपुर	दल	भार वाहन में सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
17.	श्री शिवन कश्यप पुत्र दिनेश कुमार कश्यप, डालचन्द, कोतवाली, पीलीभीत, उ.प्र.	UP2620180003472	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग करना	उपरोक्तानुसार
18.	श्री वीरपाल पुत्र श्री दोधा राम, वार्ड नम्बर- 03, नियर रेलवे स्टेशन, तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320200001833	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
19.	श्री सचिन सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, पोथ, चल्थी, पूर्णागिरी, चम्पावत चम्पावत।	UK0320190002446	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
20.	श्री योगेश चन्द पुत्र श्री हरीश चन्द, बिचई, टनकपुर, जनपद चम्पावत	UK0320130015698	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
21.	श्री दिनेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह बिष्ट, आई.जी. कैम्प ऑफिस, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल	UK0420100032489	प्रवर्तन टनकपुर	दल	ओवर स्पीड	उपरोक्तानुसार
22.	श्री श्रीतिपाल पुत्र श्री मदनलाल, घसियारा मण्डी, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320200002548	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
23.	श्री पीताम्बर भट्ट पुत्र श्री तारा दत्त भट्ट, ग्राम एवं पोस्ट बौकू, जनपद चम्पावत।	UK0320180001505	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार

24.	श्री रवि राज पुत्र श्री पृथ्वीराज, ग्राम फागपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320180003178	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
25.	श्री जंग बहादुर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, गाँव परासी राग किशन, बिलासपुर, पीलीभीत, उ.प्र.	UP2620100009497	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना	उपरोक्तानुसार
26.	श्री सुरजन्त सिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह, दोहरा गुसाडी, सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0620160111125	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
27.	श्री अजय सिंह बोहरा पुत्र श्री बहादुर सिंह बोहरा खेतखेड़ा, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320210001563	प्रवर्तन टनकपुर	दल	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
28.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री शिव लाल, म.न. 64, लालपुर चुटकी, किच्छा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0620130077256	प्रवर्तन टनकपुर	दल	भार वाहन में सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार

कार्यालयादेश

18 अक्टूबर, 2023 ई०

पत्रांक-1494/निलम्बन/2023-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह/छः माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अघोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री छोटे लाल, म.न. 64, एन.एच.पी.सी. कालोनी, बनबसा, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत।	UK0320120012517	प्रवर्तन टनकपुर	दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 18.10.2023 से दिनांक 17.01.2024 तक
2	श्री मुकेश कुमार पुत्र मनोरथ शर्मा, बी.पी.ओ. बादशाहपुर, गुडगाँव, हरियाणा।	HR-266599/2005 HR26200500098970	प्रवर्तन टनकपुर	दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री मोहन लाल पुत्र श्री दिलेराम, ग्राम मदरिया, पोस्ट न्यूरिया, पीलीभीत(उ.प्र.)	UP2620230000726	प्रवर्तन टनकपुर	दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री शेर मोहम्मद पुत्र श्री इकबाल साह, माधोटाडा, पुरनपुर, पीलीभीत(उ.प्र.),	2612004274 (गैनुअल लाइसेन्स)	प्रवर्तन टनकपुर	दल वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री भुवन चन्द्र कलोनी पुत्र श्री बिसन दत्त कलोनी, चन्दनी बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK0320080006374	चण्डीगढ़ ट्रैफिक, पुलिस	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
6	मो. जीसान पुत्र मो. शाहनूर, राजीवनगर, भूडनहोलिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0320230003696	थाना, झनकईया जनपद ऊधम सिंह नगर।	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री राकेश टम्टा पुत्र श्री दीवान राम, ग्राम बाकू रोसाल तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK0320140018705	फरीदाबाद ट्रैफिक, पुलिस	ओवर स्पीड	उपरोक्तानुसार

8	श्री सुरेश राम पुत्र श्री हयात राम, ग्राम नायकगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320130014089	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
9.	श्री परमेश्वर दिन पुत्र श्री बालक राम, ग्राम प्रसादपुर पोस्ट खड़कपुर, थाना हैदराबाद, गोला गोकर्न नाथ, लखीगपुर खीरी(उ. प्र.)	UP3120220005764	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार

सुरेन्द्र कुमार,

लाइसेंसिंग अथॉरिटी,

टनकपुर चम्पावत।

**कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)**

कार्यालयादेश

31 अक्टूबर, 2023 ई0

पत्रांक-1579/निलम्बन/2023-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

	लाइसेंस धारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री के.सी. भट्ट पुत्र श्री एन.डी. भट्ट, म.न. 411 बी ग्राम बिठौरिया, पोस्ट हरिपुरा नायक, तहसील हल्द्वानी जनपद नैनीताल।	UK0420020137636	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 31.10.2023 से दिनांक 30.01.2024 तक
2	श्री महेश सिंह पुत्र लछमन सिंह, दुधोरी, अमोड़ी, पुगला, जनपद चम्पावत	UK0320210004976	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री पंकज सिंह पुत्र श्री हरीश सिंह रैसवाल, म.न. 120 ग्राम नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत	UK0320140020659	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री राम चन्द्र लाल पुत्र राम भरोसे, ग्राम सुखदासपुर नबिदिया, पोस्ट पीपरे संतोष, माधोटाडा, पुरनपुर, पीलीभीत, उ. प्र.	UP2620210000706	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री प्रकाश कश्यप पुत्र राम अवतार कश्यप, नई बस्ती, वार्ड-05, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320220004081	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र दान सिंह, कार्की फार्म, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320110004275	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री नितिन तिवारी पुत्र श्री कमलेश चन्द्र तिवारी, सुजिया, खटीगा जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK0320210002011	प्रवर्तन दल टनकपुर	दोपहिया वाहन में क्षयता से अधिक सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार

8	श्री तेजपाल पुत्र श्री झगन लाल, ग्राम एवं पोस्ट पिपरिया, अगस्त थाना, न्यूरिया, पीलीभीत, उ.प्र.	UP2620220003430	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
9.	श्री रमेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, म.न. 90 ग्राम चन्दनी पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत।	UK0320160029752	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
10	श्री मुन्ना अहमद पुत्र श्री सागीस अहमद, सनैया धन सिंह, बरेली, उ.प्र.	UP-25-10-0-26854	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
11	श्री डोरी लाल पुत्र श्री तुला राम, म.न. 152, घसियारामण्डी वार्ड टनकपुर, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320130014794	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
12.	मनीषा पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह सामन्त, बिरिया, खटीमा, जनपद ऊधम-सिंह नगर।	UK0320220000755	परिवहन आयुक्त, पुडुचेरी	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार

नन्दन प्रसाद आर्या,

लाइसेंसिंग अथॉरिटी,

टनकपुर चम्पावत।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी, 2024 ई0 (माघ 07, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम Ram Kumar Bisth से बदलकर Ram Kumar Bisht कर लिया है, भविष्य में मुझे Ram Kumar Bisht S/o Bhagwan Singh Bisth के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Ram Kumar Bisht S/o Bhagwan Singh Bisth
निवासी जे-69, फेस-2, शिवालिक नगर भेल
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

My name has been found recorded by mistake in my Army service documents as Ram Bahadur Thappa but Correct name as per my Adhar Card & pan Card is Ram Bahadur Thapa, My correct as Ram Bahadur Thapa should be read, record in future for all purpose. Service No. 14269056X Rank Hav (Retd).

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Ram Bahadur Thapa

Resident of Hathibarkala Nayagaon

Post office Garhi Cantt, District-Dehradun

State-Uttarakhand PIN 248003

सूचना

मेरे पति स्व० पहल सिंह थापा के भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय DRDO, IRDE रायपुर, देहरादून के सेवा अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम SORKALA दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम SIRMAYA है। भविष्य में मुझे SIRMAYA पत्नी स्व० पहल सिंह थापा से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SIRMAYA पत्नी स्व० पहल सिंह थापा

निवासी-196 चोइला नियर गैलेक्सी

विद्यालय चन्द्रबनी मोहब्बेवाला देहरादून।

कार्यालय नगर पंचायत झबरेडा जनपद हरिद्वार

प्रस्तावित उपविधि

29 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांक 143/न0प0झ0/2022-नगर पालिका अधिनियम की धारा 298(झ)(घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ड), 15(च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पंचायत, झबरेडा द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर पंचायत के अधिवेशन दिनांक 28.03.22 में प्रस्ताव सं0 07 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ती एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :
 - (1) ये उप-नियम नगर पंचायत, झबरेडा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2019 कहलाएंगे।
 - (2) ये उप-नियम नगर पंचायत, झबरेडा के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
 - (3) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2009, गजटनोटिफिकेशन 16 जुलाई 2010 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पंचायत, झबरेडा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2019 लागू होने की तिथी से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. ये उप-नियम नगर पंचायत, झबरेडा की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।
3. परिभाषाएं
 - (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं:-
 - (क) "बल्क उद्यान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उद्यानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेड़ों की छटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता हैं।

- (ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;
- (ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर पंचायत का महापौर, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।
- (ङ) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।
- (च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्तर्गत किया जाना हैं।
- (छ) "सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;
- (ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;
- (झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पंचायत के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पंचायत द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;
- (ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;
- (ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) " का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;

- (ठ) "कूड़ा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो।
- (ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।
- (ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है;
- (ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।
- (प) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं; और उनके ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन कहा जाता हैं।
- (फ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्ल्यूएम नियमों और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;
- (ब) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं;
- (भ) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;
- (म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिये नगर पंचायत/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;
- (य) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;
- (र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क

या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) "खाली प्लॉट " का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय -2

ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(i) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक् करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगा:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनों श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार पृथक्कृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौपेगा।

(ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कचरे को पृथक् करे और उसे संगृहीत करे निम्नांकित 3 वर्गों में:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रों या संग्रहण केंद्रों को सौंपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) पृथक् किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगा:-

हरा:- जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीला:- गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

काला:- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौंपी जाएं। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पंचायत के भागीदारी से, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पंचायत द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सकें।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से

संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहित करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पंचायत या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबंधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुंचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरों में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पंचायत श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:-

(i) नगर पंचायत के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्ल्यूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पंचायत संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पंचायत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तथा 3 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएंगे।

(iv) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं दुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

(vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध है। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए

जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(iv) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड़ कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा दुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और नगर पंचायत द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और दुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी,ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xii) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/साइकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा,जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(xiii) अत्यंत भीड़ भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीड़ी गलियों/लेनों में जहां थ्रीव्हीलर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xv) ऑटो टिप्पर, श्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xvi) नगर पंचायत या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा

(i) घरों में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूड़ा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होंगे:-

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा चिह्नित अलग अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:-

- हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीला: गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए
- काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित

गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगर पंचायत स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रों का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगों के होंगे।

(vi) संग्रहण केन्द्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

(viii) सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें।

(ix) नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(x) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रों को स्थानांतरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं अथवा अधिकृत एजेंटों और/या नगर पंचायत से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमभव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पंचायत अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रों पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:-

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभांति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते हैं, जो नगर पंचायत द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगर पंचायत द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा।

(iv) जहां कहीं प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रों अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुंचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(vii) नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नहीं पाए जाएंगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

(xiv) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परो, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूड़ादानों से कचरा प्राप्त करेंगे।

(xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परो, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएंगें।

(xvii) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर उधर न फैले।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।

(xvix) नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :-

(i) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रों और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लांटों के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्ड ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधों की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।

(iv) नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियों को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश:-

(i) नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

- (ii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।
- (iii) नगर पंचायत यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।
- (iv) नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पंचायत अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क:-

- (क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।
- (ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा मेयर/नगर पंचायत द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- (ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पंचायत ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ङ) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढ़े पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँती वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त,अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त,उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,अधिशाली अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक,कर निरीक्षक,सब इन्स्पेक्टर, चौकी,थाना प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं महापौर सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

(ङ) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की

जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्व:-

(i) कूड़ा फेंकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ादानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूड़ा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूड़ा नहीं डालेगा।

(ग) वाहनों से कूड़ा फेंकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फेंकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ङ) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।

(ii) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

(iii) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सड़क किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनो और प्रदर्शनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पंचायत से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगर पंचायत के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत निम्नांकित ढंग से निपटेगा :-

(क) नगर पंचायत किसी परिषर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पंचायत निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :-

(i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिकों को, जो गैर-जैव अपघट्य पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसे नेपकिन या डायपर का निपटारा किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेगी।

14. नगर पंचायत के दायित्व :

(i) नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साइड गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटारा स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पंचायत अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो।

(ii) नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर पंचायत विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुवित्तसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहां कहीं अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पंचायत अद्यतन सड़क/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पंचायत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर पंचायत कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करें। नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

(ix) नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कहीं संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(x) नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(xi) नगर पंचायत यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पंचायत कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांच : महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा है।

(xv) नगर पंचायत अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वेब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थित दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाड़ी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(xvii) पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।

(xviii) नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किए गये हैं।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर, नगर पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर पंचायत अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्ज रुपये में)
1.	गराबा रखा स नाच क घर(बी.पी.एल कार्ड धारक)	कच्ची झोपडी रु 5.00,पक्का मकान रु 5.00
2.	कम आय वाले घर(बी.पी.एल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)	रु 10.00
3.	मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	रु 10.00
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रु 15.00
5.	सब्जि एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में रु 5.00 प्रतिदिन,दुकान एवं फड पर रु 10.00 प्रतिदिन
7.	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु 100.00, मध्यम रु 200.00 तथा बड़े रु 500.00
8.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस	10 बेड तक रु 100.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु 200.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु 500.00
9.	धर्मशाला	रु 200 प्रति प्रतिमाह
10.	बरातघर(चेरिटेबिल) बरातघर(नॉन-चेरिटेबिल)	रु 200.00 प्रति उत्सव रु 500.00 प्रति उत्सव
11.	बेकरी	रु 200.00 प्रति माह
12.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक रु 100.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 150.00, 101 से 300 कर्मचारियों तक रु 200.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से रु 250.00

13.	स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100 बेड तक के लिए रु 500.00, उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
14.	स्कूल / शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक रु 200.00, उससे अधिक रु 300.00
15.	हॉस्पिटल / नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक रु 500, 21 बेड से 40 बेड तक रु 600.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 700.00, उससे अधिक रु 1000.00
16.	क्लीनिक / पैथोलोजी	क्लीनिक रु 100.00, पैथोलोजी रु 200.00
17.	दुकान / चाय की दकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु 10.00, बाजार की दुकान रु 20.00, शोरूम रु 100.00, छोटे मॉल रु 500.00, बहुमंजिला मॉल रु 1000.00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निशुल्क
18.	फैक्ट्री	छोटी रु 100.00, मध्यम रु 500.00, बड़ी रु 700.00
19.	वर्कशॉप	छोटी रु 100.00, बड़ी रु 500.00
20.	कबाड़ी	छोटी रु 100.00, बड़ी रु 500.00
21.	जूस / गन्ने का रस विक्रेता	रु 100.00 प्रति माह
22.	सार्वजनिक / निजी स्थलों पर सर्कस / प्रदर्शनी / आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु 250.00 होटलों में, विवाह रु 500.00 प्रति उत्साह
23.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक रु 100.00, 1.0 घन मी0 तक रु 200.00, 3.0 घन मी0 तक रु 3000.00, 6.0 घन मी0 तक रु 400.00, इससे अधिक प्रतिघन मी0 रु 500.00 अधिक
24.	सिनेमा हॉल	रु 200.00 प्रतिमाह
25.	उपरोक्त के आतिरिक्त अन्य (प्रातःस्थान की स्थिति के अनुसार)	रु 100.00 से रु 500.00 तक

इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान / प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक् करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय	200
			बल्क जन्रेटर	500
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	1000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	1000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	500
			फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूड़े को पृथक्करण तरीके से न रखना	500
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सड़क/गली में 1. कूड़ा फेंकना,थूकना	उत्थनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
		2.नहाना,पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपड़े धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना		500
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने	आवासीय	200

	नियम 4(1)(ख) और (घ)	में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	500
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	500
			गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	500
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	500
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	5,000
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूड़ादान न रखने एवं कूड़े को पृथक्करण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				

8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए	5,000
			बजार एसोसिएशन, संघ	10,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	10,000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	10,000
			रेस्टोरेंट	10,000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	10,000
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कंपनियां	20,000
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ड)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मॉर्कट काम्पलेक्स आदि	20,000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिंक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैंकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक / वाहन/ चालक	1000
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पंचायत की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी	1000

16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रदर्शिनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक शैलिया, वाणिजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	2000
----	--	---	------------	------

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशारी अधिकारी,
नगर पंचायत, झबरेडा (हरिद्वार)।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, झबरेडा (हरिद्वार)।